



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31012025-260648
CG-DL-E-31012025-260648

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 86]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 30, 2025/ माघ 10, 1946

No. 86]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 30, 2025/ MAGHA 10, 1946

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2025

फा. सं. 12015/05/2021-क्यूए. - खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 10 की उप-धारा 5 के साथ पठित धारा 45 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एतद द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, में दिनांक 02 जुलाई, 2021 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या फाइल सं. 12015/05/2021-क्यूए में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्, -

सारणी में,

- क्रम संख्या 18, 44, 56, 64, 65, 113, 121, 122, 123, 133, 134, 146, 159, 171, 176, 185, 197 और 205 को विलोपित किया जाएगा।
- क्रम संख्या 221 के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां संबंधित कॉलम में अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

क्र.सं.	खाद्य विश्लेषक और प्रयोगशाला का नाम
"222	सुश्री संगीता विनीत तलावडेकर डाक्टर अमीन कंट्रोलर्स प्राइवेट लिमिटेड, नवी मुंबई
223	श्री एस. मुरुगेसन ग्लोबल लैब एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज एलएलपी, सलेम

224	श्री रवि नम्पली इंटरटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (फूड सर्विस), हैदराबाद
225	सुश्री राधा सुभाष शर्मा नेशनल कमोडिटीज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड – एनसीएमएल लैब्स, नवी मुंबई
226	सुश्री दीपिका गर्ग पियस लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड, इंदौर
227	सुश्री मिरुथुला एस.के साइंटिफिक फूड टेस्टिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई
228	श्री जोबी थॉमस शिवा एनालिटिकल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु
229	सुश्री रूपा रानी सोफिस्टिकेटेड इंडस्ट्रियल मैटीरियल्स एनालिटिकल लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली
230	श्री एस. बालाजी एसएमएस लैब्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई
231	श्री विपुल महेंद्रकुमार रावल विमता लैब्स लिमिटेड, अहमदाबाद
232	सुश्री अवनी मैकवान एनडीडीबी काफ लिमिटेड, आनंद
233	श्री सुरेंद्र सिंह राघव राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला, गाजियाबाद
234	सुश्री हेमलता बसवराजू यूरेका एनालिटिकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु
235	श्री मोहित त्यागी यूरेका एनालिटिकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, सोनीपत
236	श्री अभिषेक मिश्रा स्टैंडर्ड एनालिटिकल लेबोरेटरी (एनडी) प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली”;

3. निम्नलिखित प्रविष्टियां संबंधित कॉलम में अंतः प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

क्र.सं.	खाद्य विश्लेषक और प्रयोगशाला का नाम
“27	श्री प्रियेश हसमुख अमीन एक्यूरेट यूनिवर्सल लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद
34	श्री हेमल रतीशभाई दर्जी

	गुजरात टेस्टलैब प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद
51	श्री मुकेश रायकवार डाक्टर अमीन कंट्रोलर्स प्राइवेट लिमिटेड, नवी मुंबई
112	श्री पी एस धीनान नवल एनालिटिकल लैब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कृष्णागिरी, होसूर
113	श्री दिनेश कुमार एल ग्लोबल लैब एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज एलएलपी, सलेम
139	श्री बालाकृष्णन नवल एनालिटिकल लैब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कृष्णागिरी, होसूर
167	श्री हृदय भरतभाई दर्जी एनडीडीबी काफ लिमिटेड, आनंद
176	श्री पार्थसारथी श्रीकांतन ग्लोबल लैब एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज एलएलपी, सलेम
200	सुश्री नीरजा पी एन जियो-केम लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड, अरूर

जी.कमलावर्धन राव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./943/2024-25]

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 में अधिसूचना संख्या फा. सं. 12015/05/2021-क्यूए, दिनांक 02 जुलाई, 2021 द्वारा प्रकाशित हुई थी और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या फा.सं. 12015/05/2021-क्यूए, दिनांक 29 जुलाई, 2024 के माध्यम से की गई थी।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2025

F. No. 12015/05/2021-QA. – In exercise of the powers conferred under sub-section 5 of section 10 read with section 45 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following amendments in the notification number F.No. 12015/05/2021-QA published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated 2nd July, 2021, namely: -

In the table,

- Serial number 18, 44, 56, 64, 65, 113, 121, 122, 123, 133, 134, 146, 159, 171, 176, 185, 197 and 205 shall be omitted;
- After serial number 221, the following entries shall be inserted in respective columns namely: -

S. No.	Name of the Food Analyst & Laboratory
“222	Ms. Sangita Vinit Talavadekar Dr. Amin Controllers Private Limited, Navi Mumbai
223	Mr. S. Murugesan Global Lab & Consultancy Services LLP, Salem
224	Mr. Ravi Nampally Intertek India Private Limited (Food Services), Hyderabad
225	Ms. Radha Subhash Sharma National Commodities Management Services Limited - NCML Labs, Navi Mumbai
226	Ms. Deepika Garg Pious Laboratories Private Limited, Indore
227	Ms. Miruthula S K Scientific Food Testing Services Private Limited, Chennai
228	Mr. Joby Thomas Shiva Analyticals (India) Private Limited, Bengaluru
229	Ms. Rupa Rani Sophisticated Industrial Materials Analytic Labs Pvt. Ltd., New Delhi
230	Mr. S. Balaji SMS Labs Services Private Limited, Chennai
231	Mr. Vipul Mahendrakumar Raval Vimta Labs Limited, Ahmedabad
232	Ms. Avanee Macwan NDDDB CALF LTD., Anand
233	Mr. Surender Singh Raghav National Food Laboratory, Ghaziabad
234	Ms. Hemalatha Basavaraju Eureka Analytical Services Pvt. Ltd., Bengaluru
235	Mr. Mohit Tyagi Eureka Analytical Services Pvt. Ltd., Sonipat
236	Mr. Abhishek Mishra Standard Analytical Laboratory (ND) Private Limited, Delhi”;

3. The following entries shall be substituted in respective columns namely: -

S. No.	Name of the Food Analyst & Laboratory
“27	Mr. Priyesh Hasmukh Amin Accurate Universal Laboratories Private Limited, Ahmedabad
34	Mr. Hemal Ratishbhai Darji Gujarat Testlab Private Limited, Ahmedabad
51	Mr. Mukesh Raikwar Dr. Amin Controllers Private Limited, Navi Mumbai
112	Mr. P S Dheenan Nawal Analytical Labs India Private Limited, Krishnagiri, Hosur
113	Mr. Dinesh Kumar L Global Lab and Consultancy Services LLP, Salem

139	Mr. Balakrishnan Nawal Analytical Labs India Private Limited, Krishnagiri, Hosur
167	Mr. Hriday Bharatbhai Darji NDDB CALF LTD., Anand
176	Mr. Parthasarathi Srikanthan Global Lab and Consultancy Services LLP, Salem
200	Ms. Neeraja P N Geo-Chem Laboratories Private Limited, Aroor”

G. KAMALA VARDHANA RAO, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./943/2024-25]

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, *vide* notification number F. No. 12015/05/2021-QA dated 2nd July 2021 and last amended *vide* notification number F. No. 12015/05/2021-QA, dated 29th July, 2024.